



# भारत का राजपत्र

## The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 15]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जनवरी 12, 2007/पौष 22, 1928

No. 15]

NEW DELHI, FRIDAY, JANUARY 12, 2007/PAUSA 22, 1928

कार्मिक, लोक-शिकायत और पेंशन मंत्रालय

(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 जनवरी, 2007

सा.का.नि. 21(अ).—भारतीय पुलिस सेवा (संवर्ग) नियमावली, 1954 के नियम 4 के उप-नियम (1) और (2) के साथ पठित, अखिल भारतीय सेवाएँ अधिनियम, 1951 (1951 का 61) की धारा 3 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, नागालैण्ड सरकार के परामर्श से भारतीय पुलिस सेवा (संवर्ग पद संख्या का नियतन) विनियमावली, 1955 में आगे और संशोधन करने के लिए एतद्वारा निम्नलिखित विनियम बनाती है, अर्थात् :-

1. (i) इन नियमों का नाम भारतीय पुलिस सेवा (संवर्ग पद संख्या का नियतन) संशोधन विनियमावली, 2007 है।

(ii) ये विनियम सरकारी राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।

2. भारतीय पुलिस सेवा (संवर्ग पद संख्या का नियतन) विनियमावली, 1955 की अनुसूची में "नागालैण्ड" शीर्षक के अंतर्गत उसके नीचे आने वाली प्रविष्टियों हेतु निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

### नागालैण्ड

1. नागालैण्ड सरकार के अंतर्गत वरिष्ठ पद	33
पुलिस महानिदेशक	1
पुलिस अपर महानिदेशक	1
पुलिस महानिरीक्षक, मुख्यालय	1
पुलिस महानिरीक्षक (आई.एन.टी. और सी.आई.डी.)	1
पुलिस महानिरीक्षक (एन.ए.पी./रेंज)	1
पुलिस महानिरीक्षक (सीमा प्रशिक्षण)	1
कमांडेंट जनरल, होम गार्ड्स और निदेशक नागरिक सुरक्षा	1

पुलिस उप महानिरीक्षक, मुख्यालय	1
पुलिस उप महानिरीक्षक, रेंज मोकोकचुंग	1
पुलिस उप महानिरीक्षक, रेंज कोहिमा	1
पुलिस उप महानिरीक्षक, प्रशिक्षण	1
पुलिस उप महानिरीक्षक, सी.आई.डी.	1
पुलिस उप महानिरीक्षक, मानवाधिकार और सामाजिक न्याय	1
पुलिस उप महानिरीक्षक, आयोजना/आधुनिकीकरण	1
पुलिस उप महानिरीक्षक (रेंज दीमापुर)	1
पुलिस अधीक्षक, कोहिमा	1
पुलिस अधीक्षक, मोकोकचुंग	1
पुलिस अधीक्षक, तुवेनसंग	1
पुलिस अधीक्षक, जुनहेबोटो	1
पुलिस अधीक्षक, मोन	1
पुलिस अधीक्षक, वोखा	1
पुलिस अधीक्षक, फेक	1
पुलिस अधीक्षक, दीमापुर	1
पुलिस अधीक्षक, पेरेन	1
पुलिस अधीक्षक, कीफेर	1
पुलिस अधीक्षक, लोंगलेंग	1
पुलिस अधीक्षक, विशेष शाखा	1
पुलिस अधीक्षक, (अपराध)	1
कमाण्डेंट, नागालैण्ड सशस्त्र पुलिस बटालियन	1
कमाण्डेंट (एन.ए.पी.टी.सी.)	1
प्रधानाचार्य, पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय	1
सहायक पुलिस महानिरीक्षक (प्रशासन)	1
सहायक पुलिस महानिरीक्षक (आपूर्ति)	1
1. कुल वरिष्ठ ड्यूटी पद	33
2. केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति रिजर्व, उपर्युक्त मद 1 के 40 प्रतिशत की दर से	13

3. राज्य प्रतिनियुक्ति रिज़र्व, उपर्युक्त मद 1 के 25 प्रतिशत की दर से 8
4. प्रशिक्षण रिज़र्व, उपर्युक्त मद 1 के 3.5 प्रतिशत की दर से 1
5. छुट्टी रिज़र्व और कनिष्ठ पद रिज़र्व, उपर्युक्त मद 1 के 16.5 प्रतिशत की दर से 5
- सीधी भर्ती और पदोन्नति वाले पदों का वितरण निम्नानुसार होगा :
- (क) भारतीय पुलिस सेवा (भर्ती) नियमावली, 1954 के नियम 9 के अंतर्गत पदोन्नति द्वारा भरे जाने वाले पद, उपर्युक्त मद 1, 2, 3 तथा 4 के 33-1/3 प्रतिशत से अधिक नहीं 18
- (ख) सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने वाले पद (1+2+3+4+5क) 42
- कुल प्राधिकृत संख्या 60**

[सं. 11052/04/2006-अ.भा.से.(II)-क]

चैतन्य प्रसाद, निदेशक (सेवाएँ)

**टिप्पणी 1 :** इस अधिसूचना के जारी होने से पूर्व नागालैण्ड भारतीय पुलिस सेवा नागालैण्ड संवर्ग की कुल प्राधिकृत संख्या 58 थी।

**टिप्पणी 2 :** मुख्य विनियम दिनांक 22-10-1955 की संख्या एस. आर.ओ. 3350 द्वारा भारत के राजपत्र में प्रकाशित किए गए थे। बाद में, ये भारतीय पुलिस सेवा के नागालैण्ड संवर्ग के संबंध में निम्नलिखित सा.का.नि. संख्याओं और तारीखों के अंतर्गत संशोधित किए गए थे :-

क्र.सं.	सा.का.नि. संख्या	दिनांक
1.	315(अ)	24-02-86
2.	446	4-06-88
3.	805	04-11-89
4.	645	20-10-90
5.	540	5-11-94
6.	320(अ)	31-03-95
7.	740(अ)	31-12-97
8.	214(अ)	24-04-98
9.	508	13-12-2000

# **MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS**

(Department of Personnel and Training)

## **NOTIFICATION**

New Delhi, the 11th January, 2007

**G.S.R. 21(E).** —In exercise of the powers conferred by Sub-section (1) of Section 3 of the All India Services Act, 1951 (LXI of 1951) read with Sub-rules (1) and (2) of Rule 4 of the Indian Police Service (Cadre) Rules, 1954, the Central Government, in consultation with the Government

of Nagaland hereby makes the following regulations further to amend the Indian Police Service (Fixation of Cadre Strength) Regulations, 1955, namely :—

1. (i) These regulations may be called the Indian Police Service (Fixation of Cadre Strength) Amendment Regulations, 2007.

(ii) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Schedule to the Indian Police Service (Fixation of Cadre Strength) Regulations, 1955, under the heading "Nagaland" for the entries occurring thereunder, the following shall be substituted namely: —

### **Nagaland**

<b>1. Senior Posts under the State Government</b>	<b>33</b>
Director General of Police	1
Addl. Director General of Police,	1
Inspector General of Police, Headquarters	1
Inspector General of Police (INT & CID)	1
Inspector General of Police (NAP/Range)	1
Inspector General of Police (Border Training)	1
Commandant General, Home Guards & Director Civil Defence	1
Deputy Inspector General of Police, Headquarters	1
Deputy Inspector General of Police, Range Mokokechung	1
Deputy Inspector General of Police, Range Kohima	1
Deputy Inspector General of Police, Training	1
Deputy Inspector General of Police, CID	1
Deputy Inspector General of Police, Human Rights & Social Justice	1
Deputy Inspector General of Police, Planning/Modernisation	1
Deputy Inspector General of Police, Range Dimapur	1
Superintendent of Police, Kohima	1
Superintendent of Police, Mokokechung	1
Superintendent of Police, Tuensang	1
Superintendent of Police, Zunheboto	1
Superintendent of Police, Mon	1
Superintendent of Police, Wokha	1
Superintendent of Police, Phek	1
Superintendent of Police, Dimapur	1
Superintendent of Police, Peren	1
Superintendent of Police, Kiphre	1
Superintendent of Police, Longleng	1
Superintendent of Police, Special Branch	1
Superintendent of Police (Crime)	1
Commandant, Nagaland Armed Police Battalion	1
Commandant (NAPTC)	1
Principal Police Training School	1
Assistant Inspector General of Police (Administration)	1
Assistant Inspector General of Police (Supply)	1
<b>Total Senior Duty Posts</b>	<b>33</b>

2. Central Deputation Reserve @ 40% of Item 1 above 13
  3. State Deputation Reserve @ 25% of Item 1 above 8
  4. Training Reserve @ 3.5 % of Item 1 above 1
  5. Leave Reserve and Junior Posts Reserve @ 16.5% of Item 1 above 5
- The distribution of Direct Recruitment & Promotion Posts will be as follows:
- A. Posts to be filled by promotion under Rule 9 of the Indian Police Service (Recruitment) Rules, 1954, not exceeding 33-1/3% of Item 1, 2, 3 & 4 above 18
  - B. Posts to be filled up by Direct Recruitment (Items 1+2+3+4+5-A) 42
- Total Authorised Strength 60**

[No. 11052/04/2006-AIS-II-A]

CHAITANYA PRASAD, Director (Services)

**Note 1:** Prior to the issue of this notification, the Total Authorised Strength of NAGALAND IPS Cadre was 58.

**Note 2:** The principal Regulations were published in the Gazette of India vide No. S.R.O. 3350, dated 22-10-1955. Subsequently, they were amended in respect of the Nagaland Cadre of Indian Police Service vide following G.S.R. numbers and dates :

Sl.No.	G.S.R.No.	Date
1.	315(E)	24-2-1986
2.	446	4-6-1988
3.	805	4-11-1989
4.	645	20-10-1990
5.	540	5-11-1994
6.	320(E)	31-3-1995
7.	740(E)	31-12-1997
8.	214(E)	24-4-1998
9.	508	13-12-2000

**अधिसूचना**

नई दिल्ली, 11 जनवरी, 2007

सा.का.नि. 22(अ).— भारतीय पुलिस सेवा (वेतन) नियमावली, 1954 के नियम 11 के साथ पठित, अखिल भारतीय सेवाएँ अधिनियम, 1951 (1951 का 61) की धारा 3 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, नागालैण्ड सरकार के परामर्श से भारतीय पुलिस सेवा (वेतन नियमावली), 1954 में आगे और संशोधन करने के लिए एतद्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

1. (i) इन नियमों का नाम भारतीय पुलिस सेवा (वेतन) संशोधन नियमावली, 2007 है।
- (ii) ये नियम सरकारी राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।
2. तालिका में, "राज्य सरकार के अधीन भारतीय पुलिस सेवा में सावधिक वेतनमान से अधिक वेतन वाले पद, अनुसूची III-क"

में, प्रथम कॉलम में उल्लिखित प्रविष्टि "नागालैण्ड" और दूसरे तथा तीसरे कॉलम में तदनुसूची प्रविष्टियों हेतु निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

**नागालैण्ड**

पुलिस महानिदेशक नागालैण्ड	24050-650-26000 रुपए (30 वर्षों की सेवा के बाद)
अपर पुलिस महानिदेशक	22400-525-24500 रुपए
पुलिस महानिरीक्षक, मुख्यालय	18400-500-22400 रुपए
पुलिस महानिरीक्षक (आई.एन.टी. और सी.आई. डी.)	18400-500-22400 रुपए
पुलिस महानिरीक्षक (एन.ए.पी.रेंज)	18400-500-22400 रुपए
पुलिस महानिरीक्षक (सीमा प्रशिक्षण)	18400-500-22400 रुपए
कमांडेंट जनरल, होम गार्ड्स	
और निदेशक नागरिक सुरक्षा	18400-500-22400 रुपए
पुलिस उप महानिरीक्षक, मुख्यालय	16400-450-20000 रुपए
पुलिस उप महानिरीक्षक	
रेंज मोकोकचुंग	16400-450-20000 रुपए
पुलिस उप महानिरीक्षक	
रेंज कोहिमा	16400-450-20000 रुपए
पुलिस उप महानिरीक्षक, प्रशिक्षण	16400-450-20000 रुपए
पुलिस उप महानिरीक्षक, सी.आई.डी.	16400-450-20000 रुपए
पुलिस उप महानिरीक्षक,	
मानवाधिकार और सामाजिक न्याय	16400-450-20000 रुपए
पुलिस उप महानिरीक्षक,	
आयोजना/आधुनिकीकरण	16400-450-20000 रुपए
पुलिस उप महानिरीक्षक, दीमापुर	16400-450-20000 रुपए

II-तालिका में, "राज्य सरकार के अधीन भारतीय पुलिस सेवा के वरिष्ठ वेतनमान वाले पद, (सावधिक वेतनमान में वेतन के अतिरिक्त, विशेष वेतन वाले पदों सहित)" अनुसूची III-ख में पहले कॉलम में आने वाली प्रविष्टि "नागालैण्ड" और दूसरे कॉलम में आने वाली तदनुसूची प्रविष्टियों हेतु निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

पुलिस अधीक्षक, कोहिमा
पुलिस अधीक्षक, मोकोकचुंग
पुलिस अधीक्षक, तुवेनसंग
पुलिस अधीक्षक, जुनहेबोटो
पुलिस अधीक्षक, मोन
पुलिस अधीक्षक, वोखा
पुलिस अधीक्षक, फेक
पुलिस अधीक्षक, दीमापुर
पुलिस अधीक्षक, पेरेन
पुलिस अधीक्षक, कीफेर
पुलिस अधीक्षक, लौगलेंग
पुलिस अधीक्षक, विशेष शाखा
अधीक्षक, (अपराध)
कमाण्डेन्ट, नागालैण्ड सशस्त्र पुलिस बटालियन

कमाण्डेन्ट (एन.ए.पी.टी.सी.)

प्रधानाचार्य, पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय

सहायक पुलिस महानिरीक्षक (प्रशासन)

सहायक पुलिस महानिरीक्षक (आपूर्ति)

[सं. 11052/04/2006-अ.भा.से.-II-ख]

चैतन्य प्रसाद, निदेशक (सेवाएँ)

**टिप्पणी :** मुख्य नियम राजपत्र में सं. सा.का.नि. 158, दिनांक 14 सितम्बर, 1954 द्वारा प्रकाशित किए गए थे। बाद में, भारतीय पुलिस सेवा के नागालैण्ड संवर्ग के लिए अनुसूची-III में प्रविष्टियाँ, क्रमशः निम्नलिखित सा.का.नि. सं. और तारीख के द्वारा संशोधित की गई हैं :

क्र.सं.	सा.का.नि. सं.	दिनांक
1.	408	7-6-1986
2.	646	20-10-1990
3.	541	5-11-1994
4.	509	13-12-2000

#### NOTIFICATION

New Delhi, the 11th January, 2007

**G.S.R. 22(E).**—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 3 of the All India Services Act, 1951 (LXI of 1951) read with Rule 11 of the Indian Police Service (Pay) Rules, 1954, the Central Government, after consultation with the Government of Nagaland hereby makes the following Rules further to amend the Indian Police Service (Pay) Rules, 1954, namely :—

1. (i) These rules may be called the Indian Police Service (Pay) Amendment Rules, 2007.
- (ii) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In "Schedule III-A—Posts carrying pay above the time scale in the Indian Police Service under the State Government" in the Table, for the entry "Nagaland" occurring in the first column and the corresponding entries in the second and third columns, the following shall be substituted namely :—

#### Nagaland

Director General of Police, Nagaland	Rs. 24050-650-26000 (after 30 years service)
Addl. Director General of Police	Rs. 22400-525-24500
Inspector General of Police, Headquarters	Rs. 18400-500-22400
Inspector General of Police (INT & CID)	Rs. 18400-500-22400
Inspector General of Police (NAP Range)	Rs. 18400-500-22400
Inspector General of Police (Border Training)	Rs. 18400-500-22400
Commandant General, Home Guards & Director Civil Defence	Rs. 18400-500-22400
Deputy Inspector General of Police, Headquarters	Rs. 16400-450-20000

Deputy Inspector General of Police, Range Mokokchung	Rs. 16400-450-20000
Deputy Inspector General of Police, Range Kohima	Rs. 16400-450-20000
Deputy Inspector General of Police, Training	Rs. 16400-450-20000
Deputy Inspector General of Police, CID	Rs. 16400-450-20000
Deputy Inspector General of Police, Human Rights & Social Justice	Rs. 16400-450-20000
Deputy Inspector General of Police, Planning/Modernisation	Rs. 16400-450-20000
Deputy Inspector General of Police, Dimapur	Rs. 16400-450-20000

In "Schedule III-B—Posts carrying pay in the Senior Scale of the Indian Police Service under the State Government (including posts carrying Special Pay in addition to pay in time scale)" in the Table, for the entry "Nagaland" occurring in the first column and the corresponding entries in the second column, the following shall be substituted, namely :—

Superintendent of Police, Kohima  
Superintendent of Police, Mokokchung  
Superintendent of Police, Tuensang  
Superintendent of Police, Zunheboto  
Superintendent of Police, Mon  
Superintendent of Police, Wokha  
Superintendent of Police, Phek  
Superintendent of Police, Dimapur  
Superintendent of Police, Peren  
Superintendent of Police, Kiphre  
Superintendent of Police, Longleng  
Superintendent of Police, Special Branch  
Superintendent of Police (Crime)  
Commandant, Nagaland Armed Police Battalion  
Commandant (NAPTC)  
Principal Police Training School  
Assistant Inspector General of Police  
(Administration)  
Assistant Inspector General of Police (Supply).

[No. 11052/04/2006-AIS-II-B]

CHAITANYA PRASAD, Director (Services)

**Note :—**The principal Rules were published in the Gazette *vide* No. G.S.R. 158, dated 14-9-1954. The entries in Schedule III in respect of Nagaland Cadre of the Indian Police Service have been subsequently amended *vide* the following G.S.R. numbers and dates respectively :—

Sl. No.	G.S.R. No.	Date
1.	408	7-6-1986
2.	646	20-10-1990
3.	541	5-11-1994
4.	509	13-12-2000